

This Question Paper consists of 47 questions and 20 printed pages.

इस प्रश्न-पत्र में 47 प्रश्न तथा 20 मुद्रित पृष्ठ हैं।

Roll No.

अनुक्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Code No.

कोड नं.

68/ESS/1

ACCOUNTANCY

लेखांकन

(Principles and Practice of Financial Accounting)

(वित्तीय लेखांकन के सिद्धान्त एवं व्यवहार)

(320)

SET/सेट

B

Day and Date of Examination :

(परीक्षा का दिन व दिनांक)

Signature of Invigilators :

(निरीक्षकों के हस्ताक्षर)

1. _____

2. _____

General Instructions :

1. Candidate must write his/her Roll Number on the first page of the Question Paper.
2. Please check the Question Paper to verify that the total pages and total number of questions contained in the Question Paper are the same as those printed on the top of the first page. Also check to see that the questions are in sequential order.
3. Making any identification mark in the Answer-Book or writing Roll Number anywhere other than the specified places will lead to disqualification of the candidate.
4. Write your Question Paper code No. **68/ESS/1-B** on the Answer-Book.
5. (a) The Question Paper is in English/Hindi medium only. However, if you wish, you can answer in any one of the languages listed below :
English, Hindi, Urdu, Punjabi, Bengali, Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Oriya, Gujarati, Konkani, Manipuri, Assamese, Nepali, Kashmiri, Sanskrit and Sindhi.
You are required to indicate the language you have chosen to answer in the box provided in the Answer-Book.
(b) If you choose to write the answer in the language other than Hindi and English, the responsibility for any errors/mistakes in understanding the question will be yours only.
6. In case of any doubt or confusion in the question paper, the **English** Version will prevail.

सामान्य अनुदेश :

1. परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें।
2. कृपया प्रश्न-पत्र को जाँच लें कि प्रश्न-पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जाँच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में हैं।
3. उत्तर-पुस्तिका में पहचान-चिह्न बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जायेगा।
4. अपनी उत्तर-पुस्तिका पर प्रश्न-पत्र की कोड संख्या **68/ESS/1-B** लिखें।
5. (क) प्रश्न-पत्र केवल हिंदी/अंग्रेजी माध्यम में है। फिर भी, यदि आप चाहें तो नीचे दी गई किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं :
अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बँगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिंधी।
कृपया उत्तर-पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में लिखें कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं।
(ख) यदि आप हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न को समझने में होने वाली त्रुटियों/गलतियों की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी।
6. प्रश्नपत्र में किसी भी प्रकार के संदेह अथवा दुविधा की स्थिति में **अंग्रेजी** अनुवाद ही मान्य होगा।



ACCOUNTANCY

लेखांकन

(Principles and Practice of Financial Accounting)

(वित्तीय लेखांकन के सिद्धान्त एवं व्यवहार)

(320)

Time : 3 Hours]

[Maximum Marks : 100

समय : 3 घण्टे]

[पूर्णांक : 100

- Note :**
- (i) This question has **two** section - **Section 'A'** and **Section 'B'**.
 - (ii) **Section A** has **36** questions from Question No. **1 to 36**. All questions are **compulsory**.
 - (iii) **Section B** has **11** questions from Question No. **37 to 47**.
 - (iv) **Section B** has **two** options. **Option - I** : Analysis of Financial Statements. **Option - II** : Application of Computers in Financial Accounting. Candidates are required to attempt questions from one option only. **All** questions of an option are **compulsory**.

- निर्देश :**
- (i) इस प्रश्न-पत्र में दो खण्ड हैं - खण्ड 'अ' एवं खण्ड 'ब'।
 - (ii) खण्ड 'अ' में 36 प्रश्न हैं, प्रश्न-संख्या 1 से 36 तक सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
 - (iii) खण्ड 'ब' में 11 प्रश्न हैं, प्रश्न-संख्या 37 से 47 तक।
 - (iv) खण्ड 'ब' में दो विकल्प हैं। **विकल्प - I** : वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। **विकल्प - II** : वित्तीय लेखांकन में कम्प्यूटर का प्रयोग। परीक्षार्थियों को केवल एक विकल्प के ही उत्तर देने हैं। एक विकल्प के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

NOTE/ निर्देश :

- (1) Answers of all questions are to be given in the Answer-Book given to you.
सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गयी पुस्तिका में ही लिखें।
- (2) 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 02.15 p.m. From 02.15 p.m. to 02.30 p.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.
इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण दोपहर में 02.15 बजे किया जाएगा। 02.15 बजे से 02.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।



SECTION - A / खण्ड - अ

1. If a share of ₹ 10 each on which ₹ 9 called up (including premium of ₹ 2) and ₹ 7 paid up (including premium of ₹ 1) is forfeited Securities Premium Reserve Account will be debited by : 1
(A) ₹ 2 (B) ₹ 1 (C) Zero (D) ₹ 3
यदि ₹ 10 प्रत्येक के अंश जिन पर ₹ 9 मांग लिए गए थे (जिनमें ₹ 2 का प्रीमियम भी सम्मिलित है) लेकिन ₹ 7 ही प्राप्त हुए (जिसमें ₹ 1 का प्रीमियम सम्मिलित है) को जब्त किया जाए तो प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते के नाम पक्ष में लिखा जाएगा :
(A) ₹ 2 (B) ₹ 1 (C) शून्य (D) ₹ 3
2. If a share of ₹ 10 on which ₹ 8 called up and ₹ 5 paid up has been forfeited the share capital. Account will be debited by : 1
यदि ₹ 10 के अंश जिस पर ₹ 8 मंगवाए गए हैं और ₹ 5 का भुगतान किया गया है, को जब्त किया जाए तो अंश पूँजी खाते के नाम पक्ष में किस राशि का लेखा किया जाएगा ?
(A) ₹ 10 (B) ₹ 8 (C) ₹ 5 (D) ₹ 6
3. Gain of a partner is : 1
(A) Existing (Old) Ratio - New Ratio (B) New Ratio - Existing (Old) Ratio
(C) New Ratio - Sacrificing Ratio (D) Sacrificing Ratio - New Ratio
एक साझेदार का अधिलाभ होगा :
(A) वर्तमान (पुराना) अनुपात - नया अनुपात (B) नया अनुपात - वर्तमान (पुराना) अनुपात
(C) नया अनुपात - त्याग अनुपात (D) त्याग अनुपात - नया अनुपात
4. Which of the following is treated as unrecorded asset ? 1
(A) Sale of old Furniture
(B) Goodwill appearing in the Balance Sheet
(C) Bad debts recovered, written off in previous year
(D) Sale of Investments
निम्नलिखित में से कौन सी अलिखित संपत्ति है ?
(A) पुराने फर्नीचर का विक्रय
(B) स्थिति विवरण में प्रदर्शित ख्याति।
(C) पिछले वर्ष के अप्राप्य व अपलिखित ऋण।
(D) निवेशों का विक्रय
5. Balance of Provision for Doubtful Debts as on 1st April 2023 was ₹ 2,500. Bad debts during the year were ₹ 600. A provision for Doubtful Debts is to be credited @ 5% on debtors of ₹ 20,000. Provision for doubtful Debts credited to Profit and Loss Account will be : 1
1 अप्रैल 2023 को संदिग्ध ऋणों के प्रावधान का शेष ₹ 2,500 वर्ष के दौरान अप्राप्य ऋण ₹ 600 ₹ 20,000 के देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋण प्रावधान का सृजन किया गया। लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में संदिग्ध ऋण प्रावधान की कितनी राशि का लेखा किया जाएगा ?
(A) ₹ 800 (B) ₹ 1,000 (C) ₹ 1,200 (D) ₹ 900



6. Which of the following sub-unit of central processing unit stores data before being actually processed ? 1
 (A) Control Unit (B) Memory Unit
 (C) Logic Unit (D) Output Unit
 निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की कौन सी उप-इकाई वास्तविक प्रसंस्करण से पहले डेटा को संग्रहीत करती है ?
 (A) कंट्रोल यूनिट (B) मेमोरी यूनिट
 (C) लोजिक (तर्क) यूनिट (D) आउटपुट यूनिट
7. Liabilities of a firm are ₹ 8,000 and total Assets are ₹ 20,000. What is the capital of the proprietor ? 1
 एक फर्म की देयताएं ₹ 8,000 हैं तथा कुल संपत्तियां ₹ 20,000 हैं। स्वामी की पूँजी क्या होगी ?
 (A) ₹ 20,000 (B) ₹ 28,000 (C) ₹ 12,000 (D) ₹ 8,000
8. Sale of Machinery on credit is recorded in : 1
 (A) Sales Book (B) Journal Proper (C) Bank Pass-Book (D) Cash Book
 उधार पर मशीनरी के विक्रय का लेखा होगा :
 (A) विक्रय पुस्तक (B) विशेष रोजनामचा (C) बैंक पास-बुक (D) रोकड़ बही
9. Which of the following is **not** an error of principle ? 1
 (A) Purchase Book is totalled ₹ 20,000 instead of ₹ 15,500.
 (B) Repairs on the overhauling of second hand machinery purchased is not recorded in the books of accounts.
 (C) Typewriter purchased for office use has been debited to Purchases Accounts.
 (D) Sale of an old car credited sales Account.
 निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धान्त की अशुद्धि नहीं है ?
 (A) क्रय पुस्तक का कुल जोड़ ₹ 15,500 की बजाए ₹ 20,000 हो गया।
 (B) एक पुरानी मशीन के नवीकरण पर किया गया मरम्मत पर व्यय का लेखा पुस्तकों में कहीं भी नहीं किया गया।
 (C) कार्यालय उपयोग के लिए टाइपराइटर का लेखा क्रय खाते के नाम पक्ष में किया गया।
 (D) एक पुरानी कार के विक्रय का लेखा विक्रय खाते के जमा पक्ष में किया गया।
10. 'Life-Membership-fee' received by Not-For-Profit Organisation is shown as : 1
 (A) Income in 'Income and Expenditure Account'
 (B) Expenditure in 'Income and Expenditure Account'
 (C) Payment in 'Receipts and Payments Account'
 (D) Capital receipt and added in the capital fund of Balance sheet
 एक अलाभकारी संस्था द्वारा प्राप्त की गई आजीवन सदस्यता फीस को दिखाया जाता है :
 (A) 'आय व्यय खाते' में आय के रूप में
 (B) 'आय व्यय खाते' में व्यय के रूप में
 (C) 'प्राप्ति-भुगतान खाते' में भुगतान के रूप में
 (D) पूँजीगत प्राप्ति जिसे स्थिति विवरण में पूँजी कोष में जोड़ दिया जाता है।



11. Which of the following account is prepared by a Not-For-Profit Organisation ? 1
 (A) Trading Account (B) Income and Expenditure Account
 (C) Profit and Loss Account (D) Total Creditors Account

निम्नलिखित में से एक अलाभकारी संस्था द्वारा कौन सा खाता तैयार किया जाता है ?

- (A) व्यापार खाता (B) आय व्यय खाता
 (C) लाभ हानि खाता (D) कुल लेनदार खाता

12. When realisation expenses are paid by a partner on behalf of the firm, which of the following account is credited ? 1
 (A) Realisation Account (B) Cash Account
 (C) Partner's Capital Account (D) Expense Account

जब वसूली व्यय का भुगतान फर्म की ओर से एक साझेदार द्वारा किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस खाते के जमा-पक्ष में लेखा किया जाता है ?

- (A) वसूली खाता (B) रोकड़ खाता
 (C) साझेदार का पूँजी खाता (D) व्यय खाता

13. A firm earns profit of ₹ 1,30,000 on a capital of ₹ 10,00,000 and normal rate of return in similar business is 10%, super profit will be : 1

एक फर्म ₹ 10,00,000 की पूँजी पर ₹ 1,30,000 का लाभ अर्जित करती है। उस तरह के अन्य व्यवसायों की सामान्य लाभ दर 10% है, तो अधिलाभ (super profit) क्या होगा ?

- (A) ₹ 1,00,000 (B) ₹ 1,30,000 (C) ₹ 30,000 (D) ₹ 1,13,000

14. In case of profit on re-issue of forfeited share is, it is transferred to : 1
 (A) General Reserve Account
 (B) Capital Reserve Account
 (C) Securities Premium Reserve Account
 (D) Share Capital Account

जब्त अंशों के पुनःनिर्गमन पर हुए लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है ?

- (A) सामान्य संचय खाता
 (B) पूँजी संचय खाता
 (C) प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता
 (D) अंश पूँजी खाता

15. Fill in the blanks. 1x2

- (i) At the time of death of a partner his/her executer is entitled to all the rights of a _____.
 (ii) At the time of dissolution of partnership firm balance of general reserve is transferred to _____.

रिक्त स्थान भरिए :

- (i) एक साझेदार की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को _____ के सभी अधिकार मिल जाते हैं।
 (ii) फर्म के विघटन के बाद सामान्य संचय के शेष का स्थानान्तरण _____ को होता है।



16. Give one word answer to the following : 1x2

- (i) Which account will be debited on money withdrawn from Bank for personal use ?
- (ii) Which facility is offered to store and process transaction data in computerised accounting system to retrieve information to generate and view financial reports.

निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द में दीजिए :

- (i) व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बैंक से नकद आहरण को किस खाते के नाम पक्ष में लिखा जाएगा ?
- (ii) वित्तीय रिपोर्ट बनाने और देखने के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में लेनदेन के डेटा को संग्रहीत और संसाधित करने के लिए कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है ?

17. Give one word answer for the following : 1x2

- (i) Depreciation reduces the value of
- (ii) Transactions, when recorded in Journal, are known as

निम्नलिखित के उत्तर एक शब्द में दीजिए।

- (i) ह्रास मूल्य कम कर देता है
- (ii) जब लेनदेन का लेखा रोजनामचे में हो जाता है तो इसे कहा जाता है

18. Give one word answer. 1x2

- (i) At the time of retirement of a partner, Loss on revaluation will be debited to the partners Capital Account in which Ratio ?
 - (ii) After the preparation of realisation account, gain or loss on realisation is transferred to
- एक शब्द में उत्तर दीजिए।

- (i) एक साझेदार की सेवानिवृत्ति पर पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि साझेदारों के पूँजी खातों में किस अनुपात में नामपक्ष में लिखी जाएगी ?
- (ii) वसूली खाता तैयार हो जाने पर उसके लाभ अथवा हानि को कहां स्थानांतरित किया जाता है ?

19. Complete the following : 1x2

The mostly used input devices are keyboard, _____ and _____.

निम्नलिखित को पूरा कीजिए :

सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइजेस कीबोर्ड, _____ और _____ हैं।

20. As per Rules of Accounting, Increase in Asset is _____ and decrease in Asset is _____ 1x2

लेखांकन नियमों के अनुसार, संपत्तियों में वृद्धि को _____ पक्ष में लिखा जाता है तथा संपत्तियों में कमी का लेखा _____ पक्ष में किया जाता है।



21. Give one word answer of the following :

1x4

- (i) A share of ₹ 10 issued at a premium of ₹ 2 on which the full amount is called up and ₹ 7 is received, share capital Account will be credited by ?
- (ii) That part of share capital which is uncalled and kept in reserve is known as ?
- (iii) State any one purpose for which securities premium reserve amount can be utilized.
- (iv) When shares are issued to promoters of the company as remuneration for their services which account is debited ?

निम्नलिखित के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए :

- (i) ₹ 2 के किश्त पर निर्गत ₹ 10 प्रति के एक अंश जिस पर पूरी राशि की याचना हो चुकी है, ₹ 7 ही प्राप्त हुए हैं। अंश पूँजी खाते के जमा पक्ष में क्या राशि लिखी जाएगी ?
- (ii) अंश पूँजी का वह भाग जिसकी याचना नहीं की जाती और उसे बचा कर रखा जाता है, कहलाता है ?
- (iii) कोई एक उद्देश्य बताइये जिसके लिए प्रतिभूति प्रीमियम संचय कोष का उपयोग किया जा सकता है।
- (iv) जब कम्पनी के प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में अंश जारी किए जाते हैं तो कौन से खाते के नाम पक्ष में लेखा किया जाता है ?

22. Give one word answer to the following questions :

1x4

- (i) Which account shows Surplus or Deficit in case of Not-For-Profit organisation.
- (ii) When proprietor draws goods from the business for his/her personal use, it is known as ?
- (iii) Net Purchases = Cash Purchases + Credit Purchases – _____.
- (iv) While preparing Income and Expenditure A/c of a Not-For-Profit organisation 'Accrued Interest' is shown on which side ?

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए :

- (i) अलाभकारी संस्थाओं के खातों में किस खाते में अधिलाभ या कमी दिखाई जाती है।
- (ii) जब स्वामी व्यवसाय से वस्तुएं अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकालता है, तो वह कहलाता है ?
- (iii) शुद्ध क्रय = नकद क्रय + उधार क्रय – _____।
- (iv) अलाभकारी संस्था के लिए आय-व्यय खाता बनाते समय 'अर्जित ब्याज' को किस ओर/पक्ष में, दिखाया जाता है ?

23. Give a name of the accounting error for the following transactions :

1x4

- (i) Wages paid for the construction of office debited to wages account.
- (ii) Goods sold for ₹ 4,200 to Hari Om on credit were omitted from the accounts although cash received.
- (iii) Purchase of Furniture is entered in Purchase Book.
- (iv) Gurman's Account was short credited by ₹ 1,000 while Manisha's Account was excess credited by ₹ 1,000.

निम्नलिखित लेनदेनों के लिए लेखांकन अशुद्धि का नाम दीजिए :

- (i) ऑफिस के निर्माण के लिए दी गई मजदूरी का लेखा मजदूरी खाते के नाम पक्ष में कर दिया गया।
- (ii) हरि ओम को ₹ 4,200 का माल उधार बेचा गया उसका लेखा किसी खाते में नहीं हुआ जबकि उसका नकद भुगतान भी प्राप्त हो गया।
- (iii) फर्नीचर की खरीद का लेखा क्रय पुस्तक में किया गया।
- (iv) गुरमान के खाते के जमा-पक्ष में ₹ 1,000 कम लिखे गए जबकि मनीषा के खाते के जमा-पक्ष में ₹ 1,000 अधिक लिखे गए।



24. Write names of affected accounts while making Journal Entries of the following transactions : 1x4

- (i) Goods sold for cash (ii) Goods purchased on credit
(iii) Salaries paid (iv) Depreciation charged on furniture

निम्नलिखित लेन-देन की बही खाता प्रविष्टि से प्रभावित खातों के नाम दीजिए।

- (i) माल का नकद विक्रय (ii) माल का उधार क्रय
(iii) भुगतान किया गया वेतन (iv) फर्नीचर पर ह्रास लगाया गया

25. (i) Explain how re-issue of Forfeited shares at discount is recorded in the books of accounts. 2
जब्त अंशों के बट्टे पर पुनःनिर्गमन का लेखांकन लेखा पुस्तकों में कैसे किया जाता है? विवरण दीजिए।

OR/अथवा

- (ii) Explain how issue of shares for consideration other than cash is recorded in the books of accounts.

विस्तार से समझाइये कि रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले अंशों के निर्गमन का लेखा कम्पनी की खाता-पुस्तकों में कैसे किया जाता है?

26. (i) Give the meaning of Sacrificing Ratio. How it is calculated ? 2
त्याग अनुपात का अर्थ दीजिए। इसकी गणना कैसे की जाती है?

OR/अथवा

- (ii) If at the time of retirement/death of a partner, goodwill already appears in the balance sheet, how will it be treated ? Also give the necessary Journal Entry.

यदि साझेदार की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय स्थिति विवरण में ख्याति पहले से ही प्रदर्शित हो तो उसका लेखाकरण किस प्रकार किया जाएगा? आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि भी दीजिए।

27. (i) Pass necessary Journal Entry when : 2

- (a) An unrecorded liability has been discharged by the firm.
(b) An unrecorded liability is discharged by a partner on behalf of the firm.

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए जब :

- (a) फर्म द्वारा किसी अलिखित देयता का भुगतान किया गया हो।
(b) किसी साझेदार द्वारा फर्म के लिए किसी देयता का भुगतान किया गया हो।

OR/अथवा

- (ii) Give necessary Journal Entry for treatment of goodwill on retirement of a partner stating the ratio in which goodwill is to be distributed.

साझेदार की सेवानिवृत्ति पर ख्याति व्यवहार के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए। इस ख्याति का विवरण जिस अनुपात में होगा उसका उल्लेख भी कीजिए।

28. What is meant by 'Unearned Income'? Give accounting treatment and Adjustment entry of unearned income. 2

‘अनर्जित आय’ का क्या अर्थ है? अनर्जित आय के लिए लेखा विवेचन और समायोजन प्रविष्टि दीजिए।



29. (i) State the formula for calculating manager's commission : 3

- (a) When commission is allowed on net profit before charging such commission.
 (b) When commission is allowed on net profit after charging such commission.

प्रबंधक के कमीशन की गणना करने के सूत्र का वर्णन करें :

- (a) जब कमीशन की गणना कमीशन लगाने से पूर्व शुद्ध लाभ पर की जाए।
 (b) जब कमीशन की गणना कमीशन के पश्चात शुद्ध लाभ पर, कमीशन के रूप में की जाए।

OR/अथवा

(ii) What is the need for preparing Income and Expenditure Account ?

आय व्यय खाता तैयार करने की आवश्यकता क्यों है ?

30. (i) Compute operating profit from the following particulars. 3

Particulars	₹	Particular	₹
Gross Profit	50,000	Interest on loan	2,200
Carriage outward	380	Interest on Investment	280
Salaries	13,800	Loss on sale of furniture	3,500
Rent & Taxes	6,200	General Expenses	500
Lighting	1,500	Donation	510
Insurance charge	440	Rent Received	600
Bad Debts	1,250	Loss by Fire	2,000
		Gain on Sale of Machine	5,000

निम्नलिखित विवरण से प्रचालन लाभ की गणना कीजिए :

विवरण	₹	विवरण	₹
सकल लाभ	50,000	ऋण पर ब्याज	2,200
भाड़ा (बाहरी)	380	निवेश पर ब्याज	280
वेतन	13,800	फर्नीचर के विक्रय पर हानि	3,500
किराया व कर	6,200	सामान्य व्यय	500
लाइट	1,500	दान	510
बीमा व्यय	440	प्राप्त किराया	600
अप्राप्य ऋण	1,250	आग द्वारा हानि	2,000
		मशीन के विक्रय पर लाभ	5,000

OR/अथवा



(ii) As per 'Receipts and Payment Account' for the year ended on March 31st, 2023, the subscriptions received were ₹ 2,50,000. Additional Information given is as follows :

1. Subscription outstanding on 1.4.2022	₹ 50,000
2. Subscription outstanding on 31.3.2023	₹ 35,000
3. Subscription received in Advance as on 1.4.2022	₹ 25,000
4. Subscription received in Advances as on 31.3.2023	₹ 30,000

Ascertain the amount of income from subscriptions for the year 2022 - 2023.

प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्राप्त चंदे की राशि ₹ 2,50,000 है। अतिरिक्त जानकारी निम्नलिखित है :

1. 1.4.2022 को अदत्त चंदा	₹ 50,000
2. 31.3.2023 को अदत्त चंदा	₹ 35,000
3. 1.4.2022 को अग्रिम प्राप्त चंदा	₹ 25,000
4. 31.3.2023 को अग्रिम प्राप्त चंदा	₹ 30,000

वर्ष 2022 - 2023 के लिए चंदे की राशि से प्राप्त आय का निर्धारण करें।

31. (i) What journal entry is to be made at the time of a dissolution of partnership firm when : 3

- Assets are taken over by the Partners
- Payment of liabilities by the Partners
- For transfer of Assets to Realisation Account

साझेदारी फर्म के विघटन के समय क्या रोजनामचा प्रविष्टियां की जाएगी जब :

- परिसंपत्तियों का अधिग्रहण साझेदार द्वारा किया गया हो।
- साझेदार द्वारा लेनदारों को भुगतान किया गया हो।
- वसूली खाते में परिसंपत्तियों का हस्तांतरण हो।

OR/अथवा

(ii) Explain the Accounting treatment of settlement of Partner's Capital Accounts at the time of dissolution of a partnership firm :

- When Partner's Capital Account shows a debit balance.
- When Partner's Capital Account shows a credit balance.

साझेदारी फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूँजी खातों के निपटान के लेखांकन व्यवहार की व्याख्या करें :

- जब साझेदार के पूँजी खाते में नाम शेष हो।
- जब साझेदार के पूँजी खाते में जमा शेष हो।

32. Give the meaning of : 3

- Called-up capital
- Paid-up capital
- Reserve capital

अर्थ दीजिए :

- याचित पूँजी
- प्रदत्त पूँजी
- संचित पूँजी

33. (i) When a company decides to raise capital by issuing shares, at that time give the meaning of : 3

- full subscription
- under subscription
- over subscription

जब कोई कम्पनी पूँजी एकत्रित करने के लिए अंशों के निर्गमन का निर्णय लेती है उस समय अर्थ दीजिए :

- पूर्ण अभिदान
- न्यून-अभिदान
- अधि-अभिदान

OR/अथवा



(ii) Differentiate between 'Public Company' and 'Private Company' on the basis of :

- (a) Minimum number of members
- (b) Maximum number of members
- (c) Name

“सार्वजनिक कम्पनी” व “निजी कम्पनी” में निम्न के आधार पर अंतर दीजिए।

- (a) सदस्यों की न्यूनतम संख्या
- (b) सदस्यों की अधिकतम संख्या
- (c) नाम

34. (i) From the following Trial Balance of MB Garments as on 31st March 2024, prepare Trading Account and Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2024 and Balance sheet as on that date.

5

Name of the Accounts	Dr Amount (₹)	Cr Amount (₹)
Capital		80,000
Cash in hand	570	
Cash at Bank	5,600	
Purchases	53,200	
Sales		78,000
Carriage inward	2,040	
Carriage outward	3,200	
Stock (1 st April, 2023)	10,790	
Machinery	60,000	
Salaries	4,000	
Insurance Premium	600	
Sundry Debtors	28,000	
Sundry Creditors		10,000
Total	1,68,000	1,68,000

Following adjustments are to be accounted for :

- (i) Stock on 31.3.2024 was ₹ 10,000.
- (ii) Machinery to be depreciated @ 10% p.a.
- (iii) Salaries for the month of March outstanding was ₹ 1,200
- (iv) Insurance Premium paid for one year ending 30th September 2024 was ₹ 300.



निम्नलिखित एम बी गार्मेंट्स के 31 मार्च 2024 के तलपट से 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता व उस तिथि का स्थिति विवरण तैयार कीजिए।

खातों के नाम	नाम राशि (₹)	जमा राशि (₹)
पूँजी		80,000
हस्तस्थ रोकड़	570	
बैंक नकद	5,600	
क्रय	53,200	
विक्रय		78,000
भाड़ा (आंतरिक)	2,040	
भाड़ा (बाहरी)	3,200	
स्टॉक (1 अप्रैल 2023)	10,790	
मशीनरी	60,000	
वेतन	4,000	
बीमा प्रीमियम	600	
विविध देनदार	28,000	
विविध लेनदार		10,000
जोड़	1,68,000	1,68,000

खातों में निम्नलिखित समायोजन भी कीजिए :

- 31.3.2024 को स्टॉक ₹ 10,000 था।
- मशीनरी पर 10% की दर से ह्रास लगाएँ।
- मार्च के महीने के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है अदत्त वेतन ₹ 1,200 है।
- बीमा के प्रीमियम राशि ₹ 300 है जिसका भुगतान 30 सितम्बर 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किया गया।

OR/अथवा



- (ii) From the following information of Young Ladies Club. Prepare Income and Expenditure Account, the year ended 31st March 2024.

Particulars	Amount (₹)
Salaries Paid	55,000
Lighting and heating	16,000
Printing and Stationery (including ₹ 5,000 for previous year)	3,500
Subscription received (including ₹ 2,000 received in advance and ₹ 5,000 for the previous year)	40,000
Net proceeds of refreshment Room	45,000
Interest paid on Loan for half year	1,200
Rent and Rates (including ₹ 1,000 prepaid)	7,500
Locker rent received	4,500

Additional Information :

Subscriptions outstanding on 31.3.2024 were ₹ 8,000. Half year's interest on loan was also outstanding.

निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर यंग लेडिज क्लब के लिए 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय-व्यय खाता तैयार कीजिए :

विवरण	राशि (₹)
भुगतान किया गया वेतन	55,000
लाइटिंग व हीटिंग	16,000
प्रिंटिंग व स्टेशनरी (जिसमें ₹ 5,000 पिछले वर्ष के लिए सम्मिलित है)	3,500
प्राप्त चंदा (जिसमें ₹ 2,000 अगले वर्ष का अग्रिम भुगतान है और ₹ 5,000 पिछले वर्ष के लिए है)	40,000
प्रसाधन कक्ष से प्राप्ति	45,000
ऋण पर अर्धवार्षिक ब्याज का भुगतान	1,200
किराया एवं कर (₹ 1,000 अग्रिम भुगतान)	7,500
लॉकर किराया प्राप्त हुआ	4,500

अतिरिक्त सूचनाएँ :

31.3.2024 को अदत्त चंदा ₹ 8,000; ऋण का अर्धवार्षिक ब्याज का भुगतान भी अदत्त है।



35. Following is the Balance Sheet of A, B and C as at 31st March, 2024 :

5

Balance Sheet of A, B and C as at 31st March, 2024

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Sundry Creditors	37,200	Cash in Hand	7,200
Capital Accounts :		Cash at Bank	30,000
A 60,000		Stock	30,000
B 30,000		Debtors	42,000
C 30,000	1,20,000	Furniture	48,000
	1,57,200		1,57,200

B died on 30th June, 2024. Under the partnership agreement the executor of B was entitled to :

- Amount standing to the credit of his capital Account.
- Interest on capital which amounted to ₹ 375.
- His share of goodwill ₹ 21,000.
- His share of profit from the closing of the last balance sheet to the date of his death which amounted to ₹ 2,625.

Draw B's Capital Account to be rendered to his executors.

A, B और C का स्थिति विवरण 31 मार्च 2024 को निम्नलिखित है :

A, B, C का स्थिति विवरण 31 मार्च 2024 को

देयताएँ	राशि (₹)	संपत्तियाँ	राशि (₹)
विविध लेनदार	37,200	हस्तस्य रोकड़	7,200
पूँजी खाते		बैंक नकद	30,000
A 60,000		स्टॉक	30,000
B 30,000		देनदार	42,000
C 30,000	1,20,000	फर्नीचर	48,000
	1,57,200		1,57,200

30 जून 2024 को B की मृत्यु हो गई। साझेदारी समझौते के अनुसार B का उत्तराधिकारी निम्न का अधिकारी होगा :

- पूँजी खाते के जमा में राशि।
- पूँजी पर ब्याज जो कि ₹ 375 है।
- उसके भाग की ख्याति ₹ 21,000
- उसके हिस्से का लाभ जो कि अंतिम स्थिति विवरण से मृत्यु की तिथि तक ₹ 2,625 है।

B के उत्तराधिकारियों को प्रदान करने के लिए उसका पूँजी खाता बनाइये।



36. (i) H.K. Ltd. offered to public for subscription 30,000 shares of ₹ 100 cash payable as : 5

On application - ₹ 30 per share

On allotment - ₹ 30 per share

On first and final call - Balance

Applications were received for 40,000 shares. Application for 5,000 shares were rejected all together and application money was returned. The excess application money received was adjusted towards sum due on allotment. Calls were made and duly received except a shareholder holding 500 shares did not pay the call money.

Pass necessary journal entries in the books of the company.

एच.के. लि. ने जनता को ₹ 100 प्रत्येक के 30,000 अंश जारी किए, जिनका भुगतान इस प्रकार होना है :

आवेदन पर - ₹ 30 प्रति अंश

आबंटन पर - ₹ 30 प्रति अंश

प्रथम व अंतिम याचना पर - शेष

40,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 5,000 अंशों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया तथा आवेदन राशि वापिस कर दी गई। आवेदन के साथ प्राप्त हुई अधिक राशि समायोजन आबंटन में किया जाएगा। याचना राशि मँगवाई गई और पूरी राशि प्राप्त हुई सिर्फ एक अंशधारी को छोड़कर जिसके पास 500 अंश थे और वह उनपर याचना राशि का भुगतान नहीं कर पाया।

कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

OR/अथवा

(ii) L.M. Ltd. issued 2,00,000 shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 4 per share payable as follows :

On application - ₹ 5 (including premium of ₹ 3 per share)

On allotment - ₹ 7 (including premium of ₹ 1 per share)

On call - ₹ 2 per share

Applications were received for 2,00,000 shares and allotment was made to all. All money due was received.

Pass necessary Journal entries in the books of the company.

एल.एम. लिमिटेड ने प्रति अंश ₹ 10 के 2,00,000 अंशों को ₹ 4 प्रीमियम पर जारी किया जिसका भुगतान निम्न प्रकार से होगा :

आवेदन पर - ₹ 5 (₹ 3 प्रति अंश प्रीमियम शामिल है।)

आबंटन पर - ₹ 7 (₹ 1 प्रति अंश प्रीमियम शामिल है।)

याचना पर - ₹ 2 प्रति अंश

2,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और सभी को अंश आवंटित किये गए।

कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।



SECTION - B / खण्ड - ब

Attempt any one of the optional Module.

वैकल्पिक मॉड्यूल में से कोई एक कीजिए।

OPTIONAL MODULE - I / वैकल्पिक मॉड्यूल - I

(Analysis of Financial Statements) / (वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

37. Cash Balance ₹ 15,000, Trade Receivables ₹ 35,000, Inventory ₹ 40,000, Trade payables ₹ 24,000; Bank overdraft is ₹ 6,000 Current Ratio will be : 1
रोकड़ शेष ₹ 15,000; व्यापारिक प्राप्तियां ₹ 35,000; स्टॉक ₹ 40,000; व्यापारिक देनदारियां ₹ 24,000; बैंक अधिविकर्ष ₹ 6,000 चालू अनुपात होगा :
(A) 3.75 : 1 (B) 3 : 1 (C) 1 : 3 (D) 1 : 3.75
38. Angel Ltd., a stock broker, purchase 5,000 shares of Tata Housing Ltd., it is a : 1
(A) Operating Activity (B) Investing Activity
(C) Financing Activity (D) General Activity
एन्जल लि. जो कि शेयर दलाल हैं, ने टाटा हाउसिंग लि. के 5,000 अंशों का क्रय किया यह क्रिया होगी :
(A) प्रचालन क्रिया (B) निवेश क्रिया
(C) वित्तीयन क्रिया (D) सामान्य क्रिया
39. Debt equity ratio indicates risky financial position from the long term print of view if it exceeds : 1
दीर्घकालीन दृष्टि से, ऋण समता अनुपात जोखिम भरी स्थिति की ओर इशारा करता है यदि यह बढ़ जाए तो :
(A) 1 : 1 (B) 1 : 2 (C) 2 : 1 (D) 3 : 1
40. Ideal Current Ratio is : 1
आदर्श चालू अनुपात होता है :
(A) 1 : 1 (B) 1 : 2 (C) 1 : 3 (D) 2 : 1
41. "Cash from operating activities" will decrease due to : 1
(A) Increase in Current Assets (B) Decrease in Current Liabilities
(C) Increase in Current Liabilities (D) Both (A) and (B) above
"प्रचालन क्रियाओं से रोकड़" प्रवाह कम होगा यदि :
(A) चालू संपत्तियां बढ़ जाएगी। (B) चालू देयताएं कम हो जाएगी।
(C) चालू देयताएं बढ़ जाएगी। (D) (A) और (B) दोनों।
42. 'Dividend received' by other than financial enterprise is shown in cash flow statement under : 1
(A) Operating Activities (B) Investing Activities
(C) Financing Activities (D) General Activities
वित्तीय संस्थान के अतिरिक्त 'लाभांश प्राप्ति' को रोकड़ प्रवाह विवरण में किसके अन्तर्गत दिखाया जाएगा ?
(A) प्रचालन क्रियाएँ (B) निवेश क्रियाएँ
(C) वित्तीयन क्रियाएँ (D) सामान्य क्रियाएँ
43. Complete the following Sentences : 1x2
(i) In cash flow statement the amount of interim dividend paid during the year is shown as ?
(ii) Buy back of equity shares is shown as cash outflow from which type of activity ?
निम्न कथनों को पूरा कीजिए :
(i) रोकड़ प्रवाह विवरण में वर्ष के दौरान वितरित अंतरिम लाभांश कैसे दिखाया जाता है ?
(ii) अंशों की पुनः खरीद रोकड़ प्रवाह विवरण में किस क्रिया के अन्तर्गत दिखाई जाती है ?



44. Calculate the gross profit ratio from the following data : 2
 Sales ₹ 3,25,000; Sales returns ₹ 25,000 and Cost of revenue from operations ₹ 2,40,000.
 निम्नलिखित सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए :
 बिक्री ₹ 3,25,000; बिक्री वापसी ₹ 25,000; प्रचालन से आगम की लागत ₹ 2,40,000
45. What is meant by cash flow statement ? State two objectives of preparing cash flow statement. 2
 रोकड़ प्रवाह विवरण का क्या अर्थ है ? रोकड़ प्रवाह विवरण के दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
46. State any three limitations of cash flow statement. 3
 रोकड़ प्रवाह विवरण की किन्हीं तीन सीमाओं का उल्लेख कीजिए।
47. Following are the Balance sheets of Kan Ltd., prepare cash flow statement. 5

Particulars	Note No.	31 st March 2024 (₹)	31 st March 2023 (₹)
I. Equity and Liabilities			
1. Shareholder fund			
(a) Share capital		3,50,000	3,00,000
(b) Reserve and surplus	1	33,000	20,000
2. Current Liabilities			
Trade Payables		55,000	80,000
Total		4,38,000	4,00,000
II. Assets			
1. Non Current Assets			
Fixed Assets - Tangible Assets (Land)		76,000	60,000
2. Current Assets			
(a) Inventories		1,20,000	1,10,000
(b) Trade receivables		1,55,000	1,60,000
(c) Cash and Cash equivalents		87,000	70,000
Total		4,38,000	4,00,000

Note to Accounts :

Particulars	31 st March 2024	31 st March 2023
1. Reserves and Surplus i.e., Balance in statement of Profit and Loss	33,000	20,000



निम्नलिखित केन लि. के स्थिति विवरण हैं, इनसे रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए :

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2024 (₹)	31 मार्च 2023 (₹)
I. समता व देयताएं			
1. अंशधारक निधि			
(a) अंश पूँजी		3,50,000	3,00,000
(b) संचय एवं अतिरेक	1	33,000	20,000
2. चालू संपत्तियां			
व्यापार देय		55,000	80,000
कुल		4,38,000	4,00,000
II. संपत्तियां			
1. गैर चालू संपत्तियां			
स्थायी संपत्ति-मूर्त-भूमि		76,000	60,000
2. चालू संपत्तियां			
(a) स्टॉक		1,20,000	1,10,000
(b) व्यापार प्राप्य		1,55,000	1,60,000
(c) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य		87,000	70,000
कुल		4,38,000	4,00,000

खातों पर टिप्पणियां :

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
1. संचय एवं अतिरेक अर्थात् लाभ-हानि विवरण का शेष	33,000	20,000

OPTIONAL MODULE - II / वैकल्पिक मॉड्यूल - II
(Application of Computers in Financial Accounting)
(कम्प्यूटर का वित्तीय लेखांकन में उपयोग)

37. Calling cells by just their columns and row labels is called : 1
- (A) Absolute referencing (B) Mixed referencing
 (C) Relative referencing (D) Both (A) and (B)
- प्रकोष्ठों को उनकी पंक्तियों और स्तंभों के नाम से पुकारना कहलाता है :
- (A) निरपेक्ष संदर्भ (B) मिश्रित संदर्भ
 (C) संबंधी संदर्भ (D) (A) व (B) दोनों



38. Which element of a chart provides the additional information about a data marker to identify the details of data point in a data series ? 1

- (A) The legend (B) The Data Labels
(C) The Data points (D) The plot area

चार्ट का कौन सा अवयव डाटा मार्कर को अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराता है जिससे वह डाटा श्रेणी में डेटा बिन्दु के बारे में विवरणों को पहचान सके ?

- (A) लीजेंड (B) एक डाटा लेबल
(C) डाटा बिंदु (D) प्लॉट क्षेत्र

39. In Excel software Pie chart cannot plot more than : 1

- (A) Seven Categories (B) Four Categories
(C) Ten Categories (D) Eight Categories

एक्सेल सॉफ्टवेयर में पाई संचित्र में इससे अधिक श्रेणियां अंकित नहीं की जा सकती :

- (A) सात श्रेणियां (B) चार श्रेणियां
(C) दस श्रेणियां (D) आठ श्रेणियां

40. Data Base management system overcomes the limitation such as : 1

- (A) Data redundancy and inconsistency
(B) Data isolation
(C) Data duplicity
(D) All of the above

डेटाबेस प्रबंध प्रणाली कई प्रकार की सीमाओं से बचाव करती है जैसे :

- (A) डाटा अतिरेक एवं असंगतता
(B) डाटा पृथक्कीकरण
(C) डाटा का दोहरीकरण
(D) उपरोक्त सभी

41. Which of the following Component of MS Access is used to create various reports as per the requirement of the end user ? 1

- (A) Table Object (B) Report Object (C) Forms Object (D) Queries

अंतिम प्रयोगकर्ता की आवश्यकतानुसार विभिन्न रिपोर्टों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से एम.एस. एक्सेस के किस घटक का प्रयोग किया जाता है ?

- (A) टेबल ऑब्जेक्ट (B) रिपोर्ट ऑब्जेक्ट (C) फॉर्म ऑब्जेक्ट (D) क्वेरीज़



42. Once the data types is specified M.S Access allows designer to define properties of each column. In the context of text data type one of the general properties relate to 'Caption' which means : 1
- (A) single, double or decimal type of numbers
 (B) how the field's contents are displayed
 (C) specifying a value for new entries of data records
 (D) a label used for the field in data sheet and on forms and reports
- एक बार जब डाटा प्रकार विशिष्टीकृत हो जाता है तो एम.एस. एक्सेस रूपरेखक को प्रत्येक स्तंभ के लक्षणों को परिभाषित करने की अनुमति देता है। टेक्स्ट डेटा प्रकार के संदर्भ में सामान्य लक्षण 'कैप्शन' का अर्थ है :
- (A) संख्याओं के एकल, दोहरे अथवा दशमलव प्रकार।
 (B) क्षेत्र की विषय सामग्री कैसे दर्शाई गई है।
 (C) डाटा अभिलेखों की नई प्रविष्टियों हेतु मानों का विशिष्टीकरण।
 (D) डाटा शीट, फार्मों तथा रिपोर्टों के क्षेत्र हेतु प्रयुक्त किया गया लेबल।
43. The Net salary payable to an employee is obtained by deducting _____ from _____. 1x2=2
- एक कर्मचारी को देय शुद्ध वेतन निकालने के लिए _____ में से _____ को घटाया जाता है।
44. Write the steps involved for copy a chart to word. 2
- एक चार्ट को वर्ड में कॉपी करने में सम्मिलित चरण लिखिए।
45. State the earning elements used in Pay Roll calculations. Also state how these are calculated ? 2
- पे रोल की गणना में अर्जनाओं के घटकों का उल्लेख कीजिए। यह भी उल्लेख कीजिए कि इनकी गणना कैसे की जाती है ?
46. Explain formatting the chart using design option. 3
- “डिजाइन विकल्प” का प्रयोग कर चार्ट को कैसे फॉरमैट किया जाता है, व्याख्या कीजिए।
47. Using Charts/Graphs tools in Excel. Explain while modifying a chart how : 5
- (a) To move the chart
 (b) To change the data included in the chart
 (c) To reverse the data which are displayed in the rows and columns and
 (d) To modify the labels and titles
- चार्ट/ग्राफ के अवयवों का प्रयोग कर यह व्याख्या कीजिए कि कैसे एक्सेल में चार्ट इत्यादि को परिवर्तित कर बेहतर किया जा सकता है :
- (a) चार्ट का स्थान परिवर्तन
 (b) उसमें सम्मिलित डेटा में परिवर्तन
 (c) पंक्तियों और स्तंभों में प्रदर्शित डाटा में परिवर्तन
 (d) लेबल व शीर्षक में सुधार

- o O o -

